

6th August, 2020

Ref. No.: 101424/S/O/L-1/2020-21

The Manager,
Listing/Market Operation,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza,
Bandra – Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai – 400 051

The Manager, Corporate Relationship Department, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001

NSE Code – ASAHIINDIA

BSE Code - 515030

Sub: Publication of Unaudited Financial Results for the first quarter ended 30th June, 2020

Dear Sir/Madam,

Pursuant to provisions of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of Unaudited financial results of the Company for the first quarter ended 30th June, 2020, as published in "Business Standard", all editions and "Veer Arjun", New Delhi on 6th August, 2020.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours truly, For Asahi India Glass Ltd.,

Jay Dattour

FOR

Gopal Ganatra
Executive Director
General Counsel & Company Secretary
Membership No.: F7090

Encl.: As above

Asahi India Glass Ltd.

Corporate Office: 5th, 6th & 8th Floor, Tower-B, Global Business Park Mehrauli -Gurgaon Road Gurgaon- 122002 (India) Tel.: +91 124 4062212-19 Fax: +91 124 4062214, 4062288 Corporate Identity Number: 126102DL1984PLC019542 website: www.aisglass.com

Change in assets mix a key near-term challenge for AMCs

Share of high-margin equity is coming down in favour of less profitable liquid funds

SHREEPAD S AUTE Mumbai, 5 August

■ he stocks of two listed asset management companies (AMCs) Asset Management Company (HDFC AMC) and Nippon Life India Asset Management Company (Nippon AMC) — have underperformed the broader market over the past month. While the AMC stocks shed up to 16 per cent in the past month, the BSE Sensex rose around 5 per cent.

The negative impact of the change in assets under management (AUM) mix on the AMCs' top line and earnings is hurting investor sentiment towards these stocks. There is also lower equity inflows.

In the current Covid-19 crises, investors have turned relatively conservative and prefer less risky liquid funds to equity. This changed the AMCs' AUM mix in the June 2020 quarter (Q1), with an increased share of less-pricey liquid funds and a reduced percentage of highmargin equity funds.

Both AMCs reported an 18-28 per cent year-on-year (YoY) fall in their revenue due to 400-870-basis point YoY contraction in the AUM share of equity and a similar level of expansion in the share of liquid funds.

Nippon AMC's profit before tax rose 10.6 per cent to ₹199.7 crore, mainly due to higher other income and relatively low




employee cost. HDFC AMC's pre-tax profit was down 11.5 per cent YoY to ₹380.4

The equity segment attracts more than twice the management fee than debt and liquid funds, where the fee is the lowest across categories. Moreover, even within the debt segment, credit funds a high-margin debt product — saw a sharp redemption after the Franklin Templeton Mutual Fund (MF) episode. This put further pressure on AMCs'

overall performance in the June quarter. The weaker AUM mix is likely to con-

tinue in the near term. According to some

HOW THEY STACK UP Quarterly average AUM mix



AUM: Assets under management igures represent quarterly average AUM mix ource: Companies, PhillipCapital

experts, equity MFs are witnessing redemption pressure as investors are preferring to book profits, following a rebound in the equity markets after a steep fall in March

According to Binod Modi, analyst at Reliance Securities, "Amid the volatile investment scenario, the AUM share of high-margin equity funds would remain low and that of low-margin liquid funds would see good traction. This would hurt AMCs' overall revenue and earnings growth in the near term." He, however, said the long-term growth story of AMCs

On the bottom-line front, analysts expected some support from cost control as operating expenses, such as travelling, the opening of new branches, would

Analysts at PhillipCapital forecast the AMC revenue (core revenue to average AUM) to decline 7-12 per cent in FY21. Net profit growth of HDFC AMC is estimated to grow by around 2.2 per cent and that of Nippon AMC by 39.6 per cent.

The expected higher net profit growth for Nippon AMC is mainly due to a lower base. The company had reported a 15 per cent drop in net profit in FY20 because of mark-to-market losses.

Another concern, mainly for HDFC AMC, is that though the company remains the leader in the equity segment, it continues to lose market share. The management has been taking steps to recover its market share and appointed additional equity fund managers.

Further, analysts at JM Financial, who have a 'sell' rating on the HDFC AMC stock, said the current valuation (around 41x its FY21 estimated earnings) offered little comfort. The stock of Nippon AMC is currently trading at around 29x its FY21 estimated earnings.

While their long-term potential remains strong, how the two companies protect their top line and earnings growth in the coming quarters should decide the near-term stock price movement.

Check if tax filing is mandatory for you

Even if your income is below the exemption limit, you will still have to furnish ITR

BINDISHA SARANG

Even though the deadline for filing income-tax returns (ITRs) for 2019-20 has been extended till November 30, the tax filing season has begun in right earnest. Individuals with taxable income are required to file ITR within the specified due date.

But are you aware that the Finance Act, 2019, has made it mandatory for certain categories of taxpayers to file their ITR, even though their income may be below the taxable threshold?

Says Naveen Wadhwa, deputy general manager, Taxmann: "The government introduced these criteria, primarily to expand the country's tax base.'

Foreign travel: A person will have to file ITR if their expenses on foreign travel have exceeded ₹2 lakh during the fiscal year. This expenditure may have been incurred on himself or on 'any person'.

Says Balwant Jain, Mumbai-based tax and **MONEY** investment expert: "Note that it says 'any person'. It doesn't say or define 'relative'. It covers family as well as non-family members."

This ₹2-lakh criterion applies to aggregate expenditure on foreign travel. As to who needs to file ITR, Gopal Bohra, partner, NA Shah Associates, says: "The person who has actually incurred the expenditure on foreign travel is required to mandatorily file returns, not the one who has travelled."

Exemption under Section 54/54B: Previously, any person who claimed exemption from capital gains tax was not

required to file ITR, provided his total income did not exceed the basic exemption limit after claiming capital gains exemption under Sections (u/s) 54, 54B of the I-T Act. The Finance Act, 2019, changed this requirement by amending the sixth provision of Section 139(1) of the I-T Act. Says Suresh Surana, founder, RSM India: "It now requires every person to calculate the basic exemption limit without giving effect to the exemption benefit u/s 54, 54B of the I-T Act."

Simply put, it means, if after you claim such roll-over benefits, even if your total income is not more than the basic exemption limit, you will still have to furnish returns. Adds Wadhwa: "You cannot read this provision in isolation. It has to be read in conjunction with other

> provisions like the statement of financial transaction. Also, with this requirement, the government has brought both data in sync. Now it can verify the data provided by the subregistrar with the data filed in

Electricity bill: Many households have received sky-high electricity bills during the lock-

down in what seem to be cases of gross billing errors. As if this was not enough, they will now have to file ITR. According to the Finance Act, 2019, even if a person's income is below the basic exemption limit, he will have to file ITR if his annual electricity bill exceeds ₹1 lakh.

Deposit exceeding ₹1 crore: If a person has deposited ₹1 crore or more during a fiscal year in current accounts, he must file ITR. "The limit of ₹1 crore has to be checked by taking all current accounts together," says Surana

REPORT THESE CASH TRANSACTIONS TO THE TAXMAN

YOUR

These specified financial transactions must be reported to the I-T department

Cash payment for purchase of bank drafts, pay orders, or banker's cheques Cash payment for purchase of prepaid

instruments issued by the RBI Cash deposits in one or more current account of a person

Cash withdrawals (including through bearer's cheque) from one or more

current account of a person List is not exhaustive. FY is financial year

VALUE OF TRANSACTION (₹)

If aggregate payment is ₹10 lakh or more

If aggregate payment is ₹10 lakh or more

If aggregate amount is₹50 lakh or more

If aggregate amount is₹50 lakh or more in an FY

Source: Taxmann

Steel stocks shine on demand uptick hopes

FIRM CHECK

As on August 5, 2020

	Price in₹	1-day chg (%)
Jindal Stainless (Hisar)	77.9	8.5
Steel Authority of India	36.8	6.4
Tata Steel	395.8	6.3
Jindal Stainless	38.5	4.9
Tata Metaliks	502.3	4.2
Source: Bloomber	g, Exchan	ges

Compiled by BS Research Bureau

New Delhi, 5 August

Shares of metal companies, mainly steelmakers, soared on Wednesday spurred by hopes of improvement in demand after China's manufacturing activity in July expanded at the fastest pace in nearly a decade, indicating significant recovery there from the Covid-19 crises.

Further, encouraging data on sales at Steel Authority of India (SAIL) in July, too, boosted sentiment. The Nifty Metal Index jumped over 4 per cent to settle at 2,269. Tata Steel gained 6.6 per

ended 6 per cent higher at ₹37. tonnes year-on-year, or YoY). JSW Steel rose 3 per cent to ₹235.

Securities have turned 4% to settle at positive on the Indian 2,269. Tata Steel higher prices and at ₹397, while SAIL improving demand in ended 6% higher China. Domestic hot- at ₹37. JSW Steel rolled coil prices, they rose 3% to ₹235 said, are at a 7 per cent

This will remove one **The Nifty Metal** of the key overhangs

exports, they said.

exports aided the

the lockdown was

imposed, with large

recent

Analysts at BofA Index jumped over steel sector because of **gained 6.6% to end** report, India Ratings said pick-up in

discount, against the landed cost firms that were able to operate of imports from China, which during that period benefiting should support price hikes. Also, the most. Based on provisional China's net steel exports could data, India's exports of finished fall to an eight-year low of 43 mil-flats, finished longs, and semi-

cent to end at ₹397, while SAIL lion tonnes (down 9 million finished items, such as billets were up 105.4 per cent YoY during the June quarter. On a sequential basis, exports were and support Indian up 56.93 per cent in the quarter.

> BofA Securities said domestic steel spreads (up \$30 per tonne over four months) have massively outperformed global spreads (down \$11 per tonne). They steel sector since expect the outperformance to continue as Indian prices rebound in line with global trends, while domestic iron ore remains subdued on overcapacity. The brokerage has upgraded Tata Steel to 'buy', with the target price of ₹490 a share.

Tata Consumer Products Limited

(Formerly Tata Global Beverages Limited)

Registered Office: 1 Bishop Lefroy Road, Kolkata - 700020

CIN - L15491WB1962PLC031425

Email: investor.relations@tataconsumer.com, Website: www.tataconsumer.com

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2020

		11.500	928	Rs. in Crores	
	Three months ended			Year Ended	
Particulars	June 30, 2020	March 31, 2020	June 30, 2019 (Refer Note 2)	March 31, 2020	
	Unaudited	Refer Note 3	Unaudited	Audited	
Total Income from Operations	2713.91	2405.03	2392.36	9637.42	
Net Profit for the period (before tax and exceptional items)	436.18	247.55	307.76	1084.17	
Net Profit for the period before tax (after exceptional items)	499.49	(16.84)	299.70	809.38	
Net Profit for the period after tax [after exceptional items and share of profit/(loss) of Associates and Joint Ventures]	345.55	(122.48)	190.09	460.11	
Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	252.32	(46.55)	119.52	741.59	
Equity share capital (Face value of Re. 1 each)	92.16	92.16	92.16	92.16	
Reserves excluding Revaluation Reserves				13700.84	
Earnings per share (Basic & Diluted) (not annualised for the quarter) - Rs.	3.55	(0.83)	1.89	4.99	

Notes:

Additional information on standalone financial results is as follows

Residential information on standardie infancial results is as follows.			Rs. in Crores	
	Т	hree months ende	ed	Year Ended
Particulars	June 30, 2020	March 31, 2020	June 30, 2019 (Refer Note 2)	March 31, 2020
	Unaudited	Refer Note 3	Unaudited	Audited
Total Income from Operations	1605.43	1335.31	1464.04	5690.24
Profit before tax	314.26	95.88	234.71	729.41
Profit after tax	232.31	70.93	154.49	523.54

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Bombay Stock Exchange website (URL: www.bseindia.com), the National Stock Exchange website (URL: www.nseindia.com) and on the Company's website (URL: www.tataconsumer.com).
- Figures of the quarter ended June 30, 2019 as reported have been restated consequent to the demerger and transfer of Consumer Product Business (foods business) of Tata Chemicals Limited with the Company as the 'Appointed date' of the Scheme Figures for the quarter ended March 31, 2020 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year

and Published year to date figures up to the third quarter of the relevant financial year.

Sunil D'Souza Date: August 4, 2020 (Managing Director and CEO)

LGB **LGB FORGE LIMITED** 6/16/13, Krishnarayapuram Road, Ganapathy, Coimbatore - 641 006.

Ph : 0422 2532325 Fax: 0422 253233 Email id:secretarial@lgbforge.com Website: www.lgbforge.com CIN: L27310TZ2006PLC012830

NOTICE

ursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and exchange Board of India (Listing obligations and Disclosur Requirements) Regulations, 2015, Notic s hereby given that a meeting of th Board of Directors of the Company scheduled to be held on Friday, the 14 August, 2020 to inter alia and approv the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th Jun

he said Notice may be accessed on the Company's website a vww.lgbforge.com and may also be accessed on the stock exchange website at www.bseindia.com and

For LGB FORGE LIMITED Coimbatore Company Secretary

BERGER PAINTS INDIA LIMITED

(CIN: L51434WB1923PLC004793) Registered Office: Berger House, 129 Park Street, Kolkata - 700017 Phone Nos.: 033 2229 9724-28 Fax No: 033 22277288 Website: www.bergerpaints.com

mail - consumerfeedback@bergerindia.com Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of Berger Paints India Limited will be held on Friday, August 14, 2020, to inter-alia, consider and approve the Unaudited Financial Results (both Standalone and Consolidated) of the Company for the guarter ended June 30, 2020. This intimation is available on the website of the Company www.bergerpaints.com and also on the website of the Stock Exchanges where Equity Shares of the Company are listed viz., www.nseindia.com, www.bseindia.com and www.cse-india.com.

For Berger Paints India Limited Arunito Ganguly Vice President 8 Company Secretary Place : Kolkata Dated: 4th August, 2020



(a) Basic

(b) Diluted

Place: New Delhi

Date: 5th August, 2020

ASAHI INDIA GLASS LIMITED

CIN: L26102DL1984PLC019542; Website: www.aisglass.com;

Regd. Office: Unit No. 203-208, Tribhuwan Complex, Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi - 110 065

Gurugram (Haryana) - 122 002

(2.58)

(2.58)

6.32

1.64

1.64

Phone: (0124) 4062212-19; Fax: (0124) 4062244/88

	UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR T	HE QUARTER EN	DED 30™ JUNE,	2020
				(₹ Lakhs
SI.		Quarter ended	Year ended	Quarter ended
oı. lo.	Particulars Particulars	30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019
w.		Unaudited	Audited	Unaudited
1	Total Income from Operations	22,920	2,65,613	71,682
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or			
	Extraordinary items)	(9,729)	17,069	5,947
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and / or			
	Extraordinary items)	(9,729)	17,069	5,947
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and / or			
	Extraordinary items)	(6,371)	15,124	3,934
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit for			
	the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(6,375)	14,644	3,814
6	Equity Share Capital	2,431	2,431	2,431
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		1,27,793	
8	Earnings Per Share (of ₹ 1/- each) (for continuing and			
	discontinued operations) (not annualised)	i l		

	KEY STANDALONE FINANCIAL INFORMATION FOR THE QUARTER ENDED 30™ JUNE 2020				
	(₹ Lakhs)				
<u> </u>		Quarter ended	Year ended	Quarter ended	
SI. No.	Particulars Particulars	30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	
NU.		Unaudited	Audited	Unaudited	
1	Total Income from Operations	22,390	2,61,470	70,265	
2	Profit before tax	(8.897)	18 416	6 146	

- 3 Profit after tax 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges unde Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com & www.nseindia.com
- respectively and on company's website at www.aisglass.com. 2. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee on 4th Aug, 2020 and approved by the Board of Directors at their meeting held on 5th Aug. 2020.
- 3. The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS" notified under the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016, recognition and measurement principles in Ind AS 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.
- 4. The outbreak of Coronavirus (COVID-19) pandemic globally and in India and resultant slowdown of economic activity due to lockdowns, restrictions by Government Authorities have impacted the operations of the Company. The substantia reduction as compared to immediately preceding /corresponding guarter is primarily on this account. Post opening up of lockdown in a staggered manner during the quarter, the Company's operations have been gradually scaling up. The Company has sufficient liquidity and demand for its products to continue its operations. The future impact of COVID-19 remains uncertain and may be different from what we have estimated as on the date of approval of these results. The Company will continue to monitor closely any material changes to its future economic conditions

For and on behalf of the Board of Directors Sanjay Labroo Managing Director & Chief Executive Officer

सुरेश एस डुग्गर

जम्मू। प्रदेश प्रशासन ने

अनलाक-3 में एक बड़ा फैसला लेते

हए जम्मू कश्मीर में पिछले 5 महीनों

से बंद पड़े सभी धार्मिक स्थानों को

16 अगस्त से खोलने के निर्देश दे दिए

हैं। कोरोना महामारी के फैलने के

बाद कटडा स्थित माता वैष्णो देवी की

यात्रा को भी भक्तों के लिए बंद कर

हालांकि सरकारी निर्देश में माता

वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने का

कोई अलग से निर्देश नहीं दिया गया

है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि

16 अगस्त से ही माता वैष्णो देवी की

यात्रा श्रद्धालुओं की सीमित संख्या के

साथ शुरू कर दी जाएगी। यात्रा का

संचालन करने वाला श्री माता वैष्णो

देवी श्राइन बोर्ड अलग से दिशा निर्देश

जारी करेगा। माता वैष्णो देवी के लिए

रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु

प्रशासन ने हालात सही होने के बाद

अनलाक तीन में जम्म कश्मीर के

सभी धार्मिक स्थानों को खोलने की

तैयारी कर ली है।इस वर्ष 19 मार्च को

यात्रा बंद होने तक करीब

12,40,000 श्रद्धालु वैष्णो देवी के

चरणों में हाजिरी लगा चुके थे। 19

मार्च को दोपहर 2 बजे वैष्णो देवी

यात्रा कोरोना महामारी के चलते

स्थगित की गई थी, उस दिन 14,900

श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। कोरोना

अल्पकालीन ई-निविदा तिथि विस्तारण सूचना: एतद्द्वारा इस कार्यालय के

पत्रांक 568/वि.न.वि.म.-तृतीय/गा.बाद दिनांक 15.06.2020 द्वारा आमंत्रित

अल्पकालीन ई-निविदा संख्या 13/<u>W/2020-21/EUDD-3, 7/EUDC-3</u>

GZB जोकि दिनांक 05.08.2020 को समय 12:00 बजे तक भरी जानी है

त्र प्रथम भाग दिनांक 05.08.2020 को 16.00 बजे खोला जाना है, की तिथि

तक किसी भी निविदादाताओं द्वारा भाग न लिए जाने के कारण विस्तारित की

जाती है। ये निविदा दिनांक 13.08.2020 को समय 12.00 बजे तक भरी जा

सकती थी तथा प्रथम भाग दिनांक 13.08.2020 को 16.00 बजे खोला

जाएगा। निविदा की कार्य विवरण व अर्हता संबंधी विस्तृत सूचना

https://etender.up.nic.in तथा निगम की वेबसाइट www.pvvnl.org पर

देखी जा सकती हैं एवं एतदद्वारा इस कार्यालय के पत्रांक 831/वि.न.वि.म.-

न लिए जाने के कारण विस्तारित की जाती है। ये निविदा दिनांक 13.08.2020

को समय 12.00 बजे तक भरी जा सकती थी तथा प्रथम भाग दिनांक

13.08.2020 को 16.00 बजे खोला जाएगा। निविदा की कार्य विवरण व

अर्हता संबंधी विस्तृत सूचना https://etender.up.nic.in तथा निगम की

वेबसाइट www.pvvnl.org पर देखी जा सकती हैं। अन्य नियम एवं शर्ते पूर्व

की तरह यथावत रहेगी। **(सुनील कपूर) अधीक्षण अभियंता, विद्युत नगरीय**

वितरण मण्डल-तृतीय, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. 33/11

किवी उपकेन्द्र गांधी नगर, गाजियाबाद, पत्रांक: 990/05.08.2020

जम्मू कश्मीर के सभी धार्मिक

दिया गया था।

वैष्णो देवी की यात्रा 16 से

इस साल अभी तक आए थे सिर्फ 12.40 लाख श्रद्धाल

जम्मू-कश्मीर और लहाख में बदलाव का दौर जारी है : जयशंकर

विशेष प्रतिनिधि

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोंद्र द्वारा जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के निर्णय की पहली वर्षगांठ के अवसर पर बुधवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बदलाव का दौर जारी है।

जयशंकर ने ट्वीट करके क्षेत्र में हो रहे बदलाव को रेखांकित किया। उन्होंने इस बदलाव के तहत प्रगतिशील कानून लागू किए जाने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित किए जाने, कमजोर वर्ग के लोगों का सशक्तिकरण एवं समर्थन तथा विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाये जाने का जिक्र किया। विदेश मंत्री ने शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढाने

तथा महिला अधिकारों को स्निश्चित करने सहित अन्य कदमों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बदलाव का दौर जारी है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने

मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने का विफल प्रयास कर रहा है। केंद्र सरकार ने पिछले एक वर्ष में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अनेक विकास परियोजनाएं और कल्याण योजनाओं को आगे

सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में लगातार पांचवें महीने गिरावट

नई दिल्ली। देश के सेवा क्षेत्र में जलाई माह के दौरान भी गिरावट रही। कोरोना वायरस के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में लगने वाले लॉकडाउन ने कंपनियों को परिचालन में कमी लाने और कर्मचारियों की संख्या में कटौती रखने को मजबर किया जिससे सेवा क्षेत्र में संक्चन बरकरार रहा। बुधवार को जारी एक सर्वेक्षण में यह कहा गया है।

आईएचएस मार्किट इंडिया सर्विसिज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स जुलाई माह में 34.2 अंक पर रहा। हालांकि, जून के 33.7 अंक के मुकाबले यह मामूली सुधार में रहा। यह लगातार पांचवां महीना है जब सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में संक्चन रहा है।आईएचएस मार्किट इंडिया के सेवा क्षेत्र के खरीद प्रबंधकों के सूचकांक (पीएमआई) के मुताबिक जुलाई में सूचकांक में मामूली वृद्धि होने के बावजूद सेवा क्षेत्र में लगातार पांचवें माह संक्चन रहा। पीएमआई का 50 अंक से ऊपर रहना क्षेत्र में विस्तार को बताता है जबिक 50 अंक से नीचे रहने पर यह संक्चन को दर्शाता है।

आईएचएस मार्किट को अर्थशासत्री लेविस कूपर ने कहा, इतने लंबे समय तक ऐसी बड़ी गिरावट

में किसी तरह का व्यापक सुधार आने में सालों नहीं पर कई महीने लग सकते हैं। आईएचएस मार्किट के अनुमान को देखते हये देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में मार्च 2021 में समाप्त होने वाले वर्ष में 6 प्रतिशत से अधिक की गिरावट का संकेत मिलता है।सर्वेक्षण में भाग लेने वालों ने कोविड- 19 महामारी के कारण समय समय पर लगने वाले लॉकडाउन संबंधी उपायों, कमजोर मांग की स्थिति और कंपनियों में कामकाज का अस्थाई तौर पर निलंबन को सेवा क्षेत्र की गतिविधियों और आर्डर बुक दोनों में आई गिरावट से जोड़ा है। कुल मिलाकर सकल मांग की स्थिति काफी दबी हुई है, इससे सेवा प्रदाताओं ने जुलाई में रोजगारों में और कटौती की है। रोजगार में कमी की रफ्तार तेज रही है। भागीदारों ने उपयागकर्ताओं की ओर से कमजोर मांग और व्यवसायों के अस्थाई तौर पर बंद होने को इसके लिये जिम्मेदार ठहराया है।

सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र दोनों का संयोजित पीएमआई आउटपुट इंडेक्स जून के 37.8 से घटकर जुलाई में 37.2 अंक पर आ गया। इससे जुलाई माह के दौरान निजी क्षेत्र के कारोबार और गतिविधियों में और तेज सुकुचन की तरफ इशारा मिलता है।

पटरियों पर जलभराव हो गया है और

That my clientess Smt. Nirmal Kaur

W/o Sujan Singh and client Shri Sujan

Singh S/o Shri Niranjan Singh, R/o J

030, Swaroop Nagar, Khanda Colony

Gali No. 2, Delhi- 110042, disowne

their Son namely Shri Kashmir Singh

and his Wife namely Smt. Simran Kau

from all of their movable and

mmovable properties, and my clients are not liable for any debts of their Son and his Wife. Rakesh Walia,

Advocate, 101, Central Hall, Tis

मेरे मुवक्किल अमर चन्द झा एवं मुन्नी देवी निवासीगण डी-

किराडी सलेमान नगर, नोर्थ वेस्ट, दिल्ली-86 ने अपने

श्रंण से बाहर होने के कारण अपनी समस्त चल एवं अच

पत्तियों से बेदखल करते हुए सभी पारिवारिक रिश्ते न

रवार का कोई रिश्ता-नाता नहीं रहा है, भविष्य में इस

किसी भी प्रकार के क्रिया-कलापों, दीवानी, फौजदारी वाद

नवक्किलान व उनके परिवार का कोई सदस्य उत्तरदायी न

बी.जी.एस. ब्लॉक. तीस हजारी कोर्ट. दिल्ली-54.

amesh Kumar And Jyoti Gola D/o Lat

amesh Kumar, disown/debar Deepak Gol

And His Wife Smt. Nandita Parjapati D/ Mr. Mohan Parjapati from all their movable mmovable properties and from all the connections and relations as they are no

Bakshi Ram and Smt. Mohinder Kaur W/o Sl

Harpal Singh Both R/o M-2/19, Model Town II, Delhi-110009, has disowned/debarred thei Son Prabhjot Uday Singh Burman and his wif

Smt. Nisha Burman from all their moveable

and immoveable properties due to their misbehaviour, quarrel some nature towards our clients and severed all relations with them. My clients shall not be responsible in future for any

on and daughter in law. Naveen Gau-

957/30.07.2020

Advocate, Court Add.: 120 & 140, Gajana Block, Tis Hazari Courts, Delhi-110054,

acts and deeds of their above named diso

वंबंध विच्छेद कर लिए हैं। अब इससे मेरे मवक्किलों

Hazari Court, Delhi.

टेनें देरी से चल रही हैं।

मुंबई में भारी बारिश, रेल, सड़क यातायात बाधित

मुंबई, (भाषा)। महाराष्ट्र में मुंबई के बावजूद पश्चिमी रेलवे उपनगर और पड़ोसी जिलों ठाणे तथा पालघर सेवाएं चर्चगेट और डहाणू रोड के बीच में बुधवार को भारी बारिश हुई जिससे सामान्य रूप से चल रही हैं।सूत्रों ने रेल की पटरियों और सड़कों पर बताया कि सायन और कुर्ला इलाकों में जलभराव के कारण लोकल टेन तथा बस सेवाएं बाधित हो गई।

मुंबई के चेंबूर, परेल, हिंदमाता, वडाला और अन्य क्षेत्रों के निचले इलाकों में जलभराव की खबरें हैं। पालघर में सुबह भारी बारिश के कारण पश्चिमी रेलवे मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही।पश्चिमी रेलवे के मुख्य प्रवक्ता सुमित ठाक्र ने बताया कि दो घंटों में 266 मिमी. बारिश के कारण सुबह पांच बजकर 40 मिनट से सात बजकर 10 मिनट तक पालघर में ट्रेनों की आवाजाही मामूली रूप से बाधित रही और इसके चलते कुछ ही ट्रेनें चलाई गई। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक पालघर स्टेशन पर पटरियों में जलभराव के कारण उपनगरीय सेवाओं को रोक दिया गया।बहरहाल ठाकुर ने बताया कि विभिन्न उपनगरों में भारी बारिश

प्रशासन की पाबंदी से राजनीतिक दलों की बैठक नहीं हो पाई : नेशनल कॉन्फ्रेंस

विशेष संवाददाता श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है

कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को

eying and respecting my clients and m ents will not be responsible for any act mmitted by them and if any one deals wit em shall be doing at his/her own costs an निष्प्रभावी किए जाने के बाद उत्पन्न हालात पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ risks Vijay Kataria, Advocate, Chamber No. 559, Lawyer's Chamber Block नेता फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को Dwarka Courts, Delhi-110075. कुछ राजनीतिक दलों की बैठक बुलायी थी लेकिन प्रशासन द्वारा लागू सख्त पाबंदी के कारण यह आयोजित नहीं हो इक्किल नारायण सिंह पुत्र स्व. श्री पन्ना लाल तथा श्रीमती बर्फ पायी।अब्दुल्ला ने विशेष दर्जा बहाली के वी पत्नी श्री नारायण सिंह निवासीगण सी-141, गली न लिए संयुक्त राजनीतिक रणनीति बनाने अबिका विहार, करावल नगर, दिल्ली-110094 अपनी मर्जी व हेच्छा से अपने पुत्र राज कुमार तथा पूनम पत्नी राज कुमार तथ के वास्ते गुपकर रोड स्थित अपने गौरव कृष्ण सिंह पुत्र राज कुमार को अपनी समस्त चल और आवास पर विभिन्न राजनीतिक दलों के अवल संपत्ति से पूनम के गलत आचरण, व्यवहार चाल-चल ही वजह से बेदखल करते हैं। भविष्य में मेरा मुवक्किल औ नेताओं को आमंत्रित किया था। नेशनल सकी पत्नी बर्फी देवी उपरोक्त लोगों के प्रति किसी भी तरह सं कॉऋंस के नेताओं ने बताया कि दक्षिण म्मेदार नहीं होंगे, न ही उनके व्यक्तिगत कार्यों के लि नापराधिक व दिवानी के तहत उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कश्मीर में अनंतनाग से नेशनल कॉन्फ्रेंस आर.एन. दुवे, अधिवक्ता, चै. नं. के-112, लॉय-चैम्बर, तीस हजारी कोदर्स, दिल्ली-110054 के सांसद हसनैन मसूदी और पीडीपी के राज्यसभा सदस्य फयाज मीर को जिले में कोविड-19 महामारी के कारण प्रशासन It is for the information of general public that our clients Sh. Harpal Singh S/o Late Sh.

द्वारा लगायी गयी पाबंदी का हवाला

देकर गुपकर रोड से लौटा दिया गया।

माकपा नेता एमवाई तारिगामी, उत्तरी

कश्मीर में बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस

के सांसद अकबर लोन और अब्दुल्ला

के भतीजे तथा अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस

के प्रमुख मुजफ्फर शाह को उनके

आवासों के पास रोक दिया गया।

का निर्णय लिया था। इसके बाद से पाकिस्तान इस

आतंकी मौतों के बावजूद आकर्षण बरकरार रहा बंदूक थामने का

अनुच्छेद 370 की मौत के बाद भी मौतों की घाटी बनी हुई है कश्मीर वादी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के बाद शिला पट्टिका का अनावरण करते हुए। साथ में हैं राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य

जम्मू। चाहे कश्मीर को मिली धारा 370 की आजादी को छीन लिया गया पर मौतों का आंकडा कम होने को नहीं आ रहा। आप्रेशन आल आउट में आतंकियों की मौतों के बाद भी बंदूक थामने का आकर्षण बरकरार है। यही कारण था कि कश्मीर को आज भी मौत की वादी

इतना जरूर था कि पांच अगस्त के बाद पिछले एक साल में विभिन्न तंजीमों के सरगनाओं समेत 180 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। इस साल के सात महीनों में ही 145 को ढेर कर दिया गया। पर बंदूक थामने वाले भी बढ़ते चले गए।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि

एक अज्ञात व्यक्ति का शव नाम: मालूम

नही, पुत्र मालूम नही, निवास : मालूम

नहीं, उम्र : लगभग 40 वर्ष, कद : 5' 5",

रंगः सांवला, चेहरा : गोल है, जो डॉ.

RML अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां

इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई

है। इस बाबत DD No. 61-A दिनांक

30.07.2020 थाना नॉर्थ एवन्यू, नई

दिल्ली में दर्ज है।

नम्बरों पर सूचित करें।

DP/92/NDD/2020

पहचान की अपील

इस मृत व्यक्ति के बारे में या इसके परिवार के बारे में किसी भी

प्रकार की जानकारी / सुराग मिले तो निम्नलिखित पते या फोन

पहचान की अपील

को थामा था। जबिक पिछले साल 12 महीनों में 139 स्थानीय आतंकी तैयार हो गए थे।पांच अगस्त, 2019 के बाद मारे गए आतंकियों में कई बड़े सरगना भी शामिल हैं। पुलवामा जिले में एक मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के कुख्यात दहशतगर्द रियाज नायकू को ढेर करना सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इसके बाद नायकू के करीबी और अलगाववादी अशरफ सेहरई के बेटे जुनैद सेहरई समेत हिजबुल के अन्य कई बड़े आतंकी उमर फय्याज उर्फ हमाद खान,जहांगीर,वसीम अहमद वानी और मसूद भट भी मारे गए।

गोपाल दास, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदी वेन पटेल व आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत।


अंसार गजवा तुल हिंद (एजीएच) के ब्रहान कोका,लश्कर-ए-ताइबा के बशीर कोका, हैदर, इशफाक रशीद, जैश-ए-मोहम्मद के सज्जाद अहमद डार, सज्जाद नवाबी, कारी यासिर और पाकिस्तानी आईईडी एक्सपर्ट अब रहमान उर्फ फौजी भाई को भी मार गिराया गया। इस बीच 25 आतंकियों और 300 से अधिक मददगारों को गिरफ्तार भी किया गया है।इस मौत के आंकड़ों में सुरक्षाबलों और नागरिकों के मरने का आंकड़ा भी चिंताजनक है। इस साल 15 जुलाई तक 22 नागरिक और 36 सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं। जबिक

पिछले साल जनवरी से लेकर 15 जुलाई तक 76 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए . Jagannath both R/o H. No. C-5/11, Ga 5, Kabir Nagar, Delhi-110094 ha arred and disinherited their real s nely Sh. Dharmender and his wife Sn ti and their children from their a oveable and immoveable properties nev are disobedient, disrespectful a

ny clients shall not be held responsible for No. F-316, Lawyers Chamber Block Karkardoome Court, Dethi-110032.

bers. If anybody deals with them

ture, he/she shall do so entirely at his/h



सार्वजनिक सूचना मेरा नाम विशाल है कुछ दस्तावेजों में विशाल यादव लिखा गया है। भविष्य में मुझे विशाल के रूप में ही जाना जाए। विशाल पुत्र ओमपाल सिंह मकान नंबर 1, आर्य नगर, मुरादनगर, जिला गाजियाबाद।

थे और 23 नागरिक मारे गए थे। इतना जरूर था कि इस साल 15 जुलाई तक ही 145 आतंकियों को ढेर करने में सुरक्षाबलों को कामयाबी

जम्मू पहुंचते हैं। मगर कोरोना संक्रमण के चलते 18 मार्च के बाद से इस धार्मिक स्थल को भक्तों के लिए बंद कर दिया गया था। धार्मिक स्थल के बंद होने से स्थानीय लोगों के रोजगार पर इसका काफी बुरा असर पड़ा है।

इन मौतों के बाद भी दावा कश्मीर में आतंकवाद के कम होने का है। इस सच्चाई का दूसरा पहलू यह है कि स्थानीय आतंकियों के आतंकी बनने और उस पार से घुसपैठ के प्रयासों में कोई कमी नहीं आई है। सुरक्षाबल अब तलाश करो और मार डालो के अभियान में जुटे हुए हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ आतंकवाद खत्म

महामारी के चलते बीते 19 मार्च को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा स्थगित कर दी थी जो वर्तमान में भी बंद चल रही है। यात्रा फिर से शुरू करने को लेकर कई बार राज्य प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों की निरंतर बैठकें होती रहीं और सहमति भी बनती रही,लेकिन कोरोना महामारी के बढ़ते ग्राफ के चलते यह संभव नहीं हो सका था।

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ रमेश कुमार ने कहा कि स्थल 19 मार्च से बंद कर दिए गए थे। राज्य प्रशासन ने 16 अगस्त से वैष्णो देवी के कपाट खोले जाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन के आदेशों का अनुसरण करते हुए श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं के लिए वैष्णो देवी के कपाट खोलेगा। इतना तय है कि जब यात्रा शुरू होगी तो शुरुआत में श्राइन बोर्ड सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को भवन जाने की इजाजत देगा। संभवत: सबसे पहले दर्शन करने का मौका स्थानीय श्रद्धालुओं को मिल सकता है। संबंधित अधिकरियों के अनुसार, आगामी कुछ दिनों में यात्रा को लेकर जो दिशा-निर्देश यानी एसओपी प्रशासन द्वारा जारी की जाएगी.उसे तय समय पर श्राइन बोर्ड पूरा कर लेगा। एसओपी में वैष्णो देवी के सभी प्रवेश द्वारों पर सैनिटाइजेशन टनल का निर्माण, वैष्णो देवी भवन के साथ ही प्रसिद्ध अर्द्धकृंवारी मंदिर भैरव घाटी मंदिर में शारीरिक दुरी के अनुसार निशान लगाना,यात्रा करते समय श्रद्धालुओं के विशेष शारीरिक दूरी का ध्यान रखना,जगह-जगह इमेज स्कैनर टीम की तैनाती करना,घोड़ा,पिट्ठ व पालकी के रूप में कार्य करने वाले मजदूरों में विशेष साफ-सफाई का ध्यान रखना आदि प्रमुख दिशा निर्देश होंगे।

पलामू में जबरन वसूले गए धन के साथ नक्सली गिरफ्तार

मेदिनीनगर (झारखंड), (भाषा) । पलामू जिले में सतबरवा के समीप रंगदारी वसूल (जबरन वूसली) करके लौट रहे एक नक्सली को पुलिस के विशेष दल ने गिरफ्तार कर लिया। पलाम् के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि उग्रवादी संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद (जेजेएमपी) के सदस्य विजय प्रजापति को मंगलवार को उस वक्त गिरफ्तार किया गया, जब वह लातेहार में एक व्यक्ति के पास से 34,000 रुपये रंगदारी वसल कर लौट रहा था।उन्होंने बताया कि उग्रवादी के पास से 34,000 रुपए नकदी के अलावा एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फोन और दो सिम कार्ड बरामद किए गए है। लिंडा ने बताया कि प्रजापति । पूछताछ में खुलासा किया कि उक्त रुपये जेजेएमपी के स्वयंम्भू एरिया

कमांडर अर्जुन सिंह को दिए जाने थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल

निलंगेकर का निधन

पुणे, (भाषा)। महाराष्ट्र के पूर्व

मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का बीमारी के कारण बुधवार को यहां निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे। उनके परिवार के सूत्रों ने बताया कि निलंगेकर का यहां एक निजी अस्पताल में निधन हुआ। वह जुलाई में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे लेकिन बाद में स्वस्थ हो गए थे और जांच में संक्रमित न पाए जाने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। मराठावाड़ा क्षेत्र के लातुर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता निलंगेकर जून 1985 से मार्च 1986 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। निलंगेकर ने अपनी बेटी और उसकी दोस्त की मदद के लिए 1985 में एमडी परीक्षा के नतीजों में छेड़छाड़ के आरोप लगने के कारण मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।वह जुलाई में कोविड-19 वैश्विक महामारी की चपेट में आए और उन्हें इलाज के लिए पुणे ले जाया गया। पुणे के अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा और साथ ही उनके गुर्दे ने अचानक काम करना बंद कर दिया।पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वसंतदादा पाटिल के इस्तीफा देने के बाद निलंगेकर मुख्यमंत्री बने थे। वह वसंतदादा पाटिल के करीबी सहयोगी थे जिन्होंने उनकी जानकारी के बिना प्रभु राउ को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। उस समय निलंगेकर राज्य विधायिका के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। 1991 में उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया और वे एक साल तक इस पद पर रहे। वह 2003 में सुशील कुमार शिंदे के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में राजस्व मंत्री बने। 2014 उन्हें अपने पोते संभाजी पाटिल निलंगेकर से हार का सामना करना पड़ा जो उस समय

निलंगा विधानसभा सीट से भाजपा

उम्मीदवार थे।



हस्ता/- थानाध्यक्ष

थाना : नॉर्थ एवन्यू, नई दिल्ली

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक

फोन: 011-23093294, 23093040

अज्ञात व्यक्ति जिसका नामः सोनू पुत्र नामालूम, निवासीः नामालुम उम्र : लगभग 40-45 साल कद: 5'4", चेहराः लम्बा, रंग: सांवला, शरीरः दिल्ली में भर्ती कराया गया था जहां से उसे एएए अस्पताल दिल्ली में रेफर कर दिया गया वहाँ इलाज के दौरान 29.07.2020 को जसकी

मृत्यु हो गई । इस संदर्भ में डी डी सं. 58 ए दिनांक 29.07.2020 थाना कोतवाली, दिल्ली में दर्ज है। इसके शव को 72 घंटो के लिए सब्जी मण्डी मुर्दाघर, दिल्ली में सुरक्षित रखा

यदि किसी भी व्यक्ति को इस मृत व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो निम्नलिखित को सुचित करने की कृपा करें:--थानाध्यक्ष : थाना कोतवाली, दिल्ली

उत्तरी जिला, दिल्ली दुरभाष सं. 011-23977100, 23953442, DP/424/N/2020 875087012

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना:-अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नलिखित कार्य/आपूर्ति हेत् अनुभवी एवं प्रतिष्ठित ठेकेदारों जिनका आयकर वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) में पंजीकृत तथा संबंधित निविदा में वर्णित अर्हता को पूर्ण करते हो के द्वारा अलग-अलग दो भागों में आमंत्रित की जाती है जो दिनांक 14.08.2020 को समय 12:00 बजे तक प्राप्त की जाएगी। और उसी दिन 16.00 बजे सार्वजनिक रूप से खोली जाएगी। यदि उस दिन अवकाश हुआ तो ये निविदाएं अगले कार्य दिवस में खोली जाएगी। निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से पृथक रूप से आई.सी.आई.सी. आई. बैंक के खाता सं. 628605500959 (IFSC ICIC0006286) में जमा कराकर बैंक जमा का साक्ष्य तथा योज्य यू.टी.आर. सं., पे-इन-स्लिप की मूल प्रति अन्य आवश्यक प्रपत्रों के साथ जमा किया जाना आवश्यक है। निविदा प्रपत्रों की बिक्री केवल जी.एस.टी. में पंजीकृत फर्मों की ही स्वीकार की जाएगी अल्पकालीन निविदा संख्या:-25/W/2020-21/EUDD-3/EUDC-3 GZB **निविदा प्रपत्र शुल्कः-**रु.-1180.00 (जी.एस.टी. सहित) धरोहर राशिः ह. 2000.00, **कार्य का विवरण:-**वि.न.वि.ख.-तृतीय गा.बाद के कार्यक्षेत्र में दैवीय आपदा इत्यादि कारणों से विद्युत आपूर्ति में उत्पन्न हुए विघन को दूर किए जाने हेतु आवश्यक अनुरक्षण का कार्य। अल्पकालीन निविदा संख्या:-26/W/2020-21/EUDD-4/EUDC-3 GZB निविदा प्रपत्र शुल्क:- रु.-1180.00 (जी.एस.टी. सहित) धरोहर राशिः रु. 2000.00, **कार्य का** विवरण:-वि.न.वि.ख.-चतुर्थ गा.बाद के कार्यक्षेत्र में दैवीय आपदा इत्यादि कारणों से विद्युत आपूर्ति में उत्पन्न हुए विघन को दूर किए जाने हेतु आवश्यक अनुरक्षण का कार्य। **अल्पकालीन निविदा संख्या:-27**/W/2020-21/EUDD-7/EUDC-3 GZB निविदा प्रपत्र शुल्क:- रु.-1180.00 (जी.एस.टी. सहित) धरोहर राशि: रु. 2000.00, **कार्य का विवरण:**-वि.न.वि.ख.-सप्तम गा.बाद के कार्यक्षेत्र में दैवीय आपदा इत्यादि कारणों से विद्युत आपूर्ति में उत्पन्न हुए विघन को दूर किए जाने हेतु आवश्यक अनुरक्षण का कार्य। अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कारण बताए समस्त अथवा किसी भाग को निरस्त करने का अधिकार होगा। निविदाओं की अर्हता संबंधी विस्तृत सूचना निगम की वेबसाइट www.pvvnl.org पर देखी जा सकती है तथा अन्य किसी भी प्रकार के संशोधन/विस्तार के लिए निविदा खुलने की तिथि से पहले तक लॉग ऑन करें। ''राष्ट्रहित में विजली वचाएं'', अधीक्षण अभियंता विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-तृतीय, गाजियाबाद। पत्रांकः



ASAHI INDIA GLASS LIMITED

CIN ; L26102DL1984PLC019542 ; Website : www.aisglass.com

Regd. Office: Unit No. 203-208, Tribhuwan Complex, Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi - 110 065

Corp. Office: Global Business Park, Tower - B, 5th Floor, Mehrauli Gurgaon Road

Gurugram (Haryana) - 122 002 Phone: (0124) 4062212-19; Fax: (0124) 4062244/88

UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30™ JUNE, 2020

SI.		Quarter ended	Year ended	Quarter ended
No.	Particulars	30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019
NO.	10.000.000	Unaudited	Audited	Unaudited
1	Total Income from Operations	22,920	2,65,613	71,682
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	(9,729)	17,069	5,947
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(9,729)	17,069	5,947
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(6,371)	15,124	3,934
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(6,375)	14,644	3,814
6	Equity Share Capital	2,431	2,431	2,431
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		1,27,793	
8	Earnings Per Share (of ₹ 1/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised)	80.000	67881	
	(a) Basic	(2.58)	6.32	1.64
	(b) Diluted	(2.58)	6.32	1.64

KEY STANDALONE FINANCIAL INFORMATION FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2020

01		Quarter ended	Year ended 31.03.2020	Quarter ended 30.06.2019
SI. No.	Particulars	30.06.2020		
NO.	SAME SERVICED.	Unaudited	Audited	Unaudited
1	Total Income from Operations	22,390	2,61,470	70,265
2	Profit before tax	(8,897)	18,416	6,146
3	Profit after tax	(5,673)	15,991	4,014

- 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com & www.nseindia.com respectively and on company's website at www.aisglass.com.
- 2. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee on 4th Aug., 2020 and approved by the Board of Directors at their meeting held on 5th Aug, 2020.
- 3. The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS" notified under the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016, recognition and measurement principles in Ind AS 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.
- 4. The outbreak of Coronavirus (COVID-19) pandemic globally and in India and resultant slowdown of economic activity due to lockdowns, restrictions by Government Authorities have impacted the operations of the Company. The substantial reduction as compared to immediately preceding /corresponding quarter is primarily on this account. Post opening up of lockdown in a staggered manner during the quarter, the Company's operations have been gradually scaling up. The Company has sufficient liquidity and demand for its products to continue its operations. The future impact of COVID-19 remains uncertain and may be different from what we have estimated as on the date of approval of these results. The Company will continue to monitor closely any material changes to its future economic conditions

Place: New Delhi Date: 5th August, 2020

Managing Director & Chief Executive Officer